

संत निरंकारी पब्लिक विद्यालय, तिलक नगर  
कार्य पत्रक (वर्कशीट)  
कक्षा - तृतीय (पाठ्य पुस्तक सम्बन्धी प्रश्न)

- प्र० १ - दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया?
- प्र० २ कहानी का शीर्षक बंदर बाँट क्यों है?
- प्र० ३ तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ I
- प्र० ४ सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा?
- प्र० ५ अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों?
- प्र० ६ सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा?
- प्र० ७ गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे?
- प्र० ८ क्योंजीमल और कैसे-कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे?
- प्र० ९ नीचे दे गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों ?  
चाकू, बिजली, टूटा हुआ काँच, आग
- प्र० १० गाँव वालों ने बाघ को पिंजड़े में बंद करने की योजना बनाई थी I किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजड़े में बंद रखना सही है या गलत? क्यों?
- प्र० ११ नाना मुझे झाड़-फूँक वाले आदमी के पास क्यों ले गए?
- प्र० १२ मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था?'
- प्र० १३ मुझे असल में साँप ने नहीं काटा था I फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको साँप ने काटा क्यों रखा है? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ I
- प्र० १४ मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका I क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है?
- प्र० १५ काबुलीवाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया?
- प्र० १६ सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दी होगी?

प्र० १७ सारी मिर्च खाने के बाद काबुलीवाले की क्या हालत हुई होगी?

प्र० १८ अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी, क्या काबुलीवाले ने टमाटर खाय़ा होगा?

प्र० १९ लाल लाल मिर्च देखकर काबुलीवाले के मुहँ में किन चीजों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है?

प्र० २० तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? तुम्हे कैसे पता चला? कौन सा महीना होगा?

प्र० २१ घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे?

प्र० २२ किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते?

प्र० २३ कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं?

प्र० २४ तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा? क्यों?

प्र० २५ अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या-क्या नाम हो सकते थे?